

में एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उक्त यात्रा (रेल/स्टीमर/वायु) उसी श्रेणी में की गयी है जिस श्रेणी के लिए यात्रा भत्ता का दावा किया गया है और वास्तविक व्यय की राशि, दावा की गयी कुल राशि से कम नहीं है।
I, do hereby declare that the journeys (Rly./Steamer/Air) were performed by that class for which T.A. is claimed and that the actual expenses incurred was not less than the sum claimed.

प्रभाग/अनुभाग/Division/Section

दिनांक/Date: _____

हस्ताक्षर/Signature

उक्त यात्रा को संस्थान के हित में मेरे द्वारा प्रायोजित की गयी थी। उक्त यात्रा पर होने वाले व्यय को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता खाता से वसूल किया जाए।

The journey was sponsored by me for the interest of the Institute. The expenses incurred may be debited to the TA/DA A/c.

प्रभाग प्रमुख/Head of the Division

लेखा अधिकारी/प्रमुख लेखाकार की टिप्पणियाँ
Observations of the Accounts Officer/Chief Accountant:

उप लेखा नियंत्रक
Dy. Controller of Accounts

संस्थान के यात्रा नियमावली के अधीन ग्राह्य राशि से संबंधित नोट तथा गणनाएं /
Notes and calculations of the exact amount admissible under the T.A. rules of the Institute.

मूल वेतन/Basic Pay _____

रेलवे, वायुयान अथवा स्टीमर का भाड़ा/
Railway, Aeroplane or Steamer fare (Col 10) Rs. _____

रोड माइलेज/टैक्सी का किराया/
Road Mileage/Taxi Fare (Col 13) Rs. _____

वास्तविक व्यय/दैनिक भत्ता/
Actual expenses/D.A. (Col 16) Rs. _____

कुल रु. /Total Rs. _____

लिए गए अग्रिम की राशि को घटाया जाए/
Less advance taken (Col 18) Rs. _____

भुगतान हेतु निवल राशि/वापसी योग्य राशि/
Net amount payable/refundable Rs. _____

रु./Rupees _____ केवल only.

के द्वारा तैयार किया गया/Prepared by:

के द्वारा जांच किया गया/Checked by:

अनुभाग अधिकारी/Section Officer

साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स/Saha Institute of Nuclear Physics

अभ्युक्तियाँ/Remarks

रजिस्ट्रार/Registrar
साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स
Saha Institute of Nuclear Physics

रु. _____ केवल का भुगतान किया जाए।

Pay Rupees _____ only.

निदेशक/Director

साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स/Saha Institute of Nuclear Physics